

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो...

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कुंदन बना दो।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

सुनहरी ये दुनिया मेरी नथी इतनी, सुनहरी ये दुनिया मेरी नथी इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

सुनहरी ये दुनिया मेरी नथी इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए।

करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, के हर स्वास हो तेरे चिंतन की माला, चिंतन की माला ।

मेरे मन की दुनिया को इतना बदल दो, की दुनिया ये तेरी दिलसे लगाए।

मेरे मन की दुनिया को इतना बदल दो, की दुनिया ये तेरी दिलसे लगाए।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

जगत को में अपना परिवार समझू, जगत को में अपना परिवार समझू, परिवार को तेरा उपकार समझू, उपकार समझू।

कुसंग लोभ अभिमान क्रोध और आलस्य के इनमे न हमको कोई सता ना पाए।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने, वृक्षों के गाने।

नज़र जिस तरफ जाए भगवन हमारी, नज़र जिस तरफ जाए भगवन हमारी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए।

नज़र जिस तरफ जाए भगवन हमारी, अमर ज्योति तेरी इधर मुस्कुराए। अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए इधर मुस्कुराए।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।

- योगिराज अमरज्योति जी

Meaning in English

1. प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए।
(Lord, make my life Pure Gold, don't let any fault stay in it)
2. सुनहरी ये दुनिया मेरी नथी इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए।
(My world is Golden, so no sin should come in it)
3. करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, के हर स्वास हो तेरे चिंतन की माला।
(Do such a light in my life, that every breath may be garland of your thought)
4. मेरे मन की दुनिया को इतना बदल दो, की दुनिया ये तेरी दिलसे लगाए।
(Change the world of my mind so much, that the world embraces me to their heart)
5. जगत को मैं अपना परिवार समझू, परिवार को तेरा उपकार समझू।
(May I understand world as a family and may I consider family as your favor)
6. कुसंग लोभ अभिमान क्रोध और आलस्य के इनमे न हमको कोई सता ना पाए।
(May Bad Company, greed, pride, anger and laziness not haunt us)
7. घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने
(The wind of the ghats, the dancing of creepers and the singing of trees)
8. नज़र जिस तरफ जाए भगवन हमारी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए।
(Wherever my eyesight goes, may your Amar Jyoti (immortal flame) smiles there)